

माता-पिता/अभिभावको,

जैसा कि मई में साझा किया गया था, टोरोंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (टीडीएसबी) सभी परिवारों को 2021-22 स्कूल वर्ष के लिए इन-पर्सन या वर्चुअल लर्निंग के लिए चयन फॉर्म भरने के लिए कहेगा।

पिछले कई हफ्तों में, टोरोंटो में कोविड-19 मामलों में गिरावट जारी है, और हमने 12-17 आयु वर्ग के वयस्कों और बच्चों में वैक्सीनों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यह उत्साहजनक समाचार है, और हम सभी छात्रों को उनके होम स्कूलों से फिर से जोड़ने और सितंबर में इन-पर्सन रूप से उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।

जब कि जहां आवश्यक हो वहां वर्चुअल लर्निंग के अनुरोधों को समायोजित किया जाएगा, हम दृढ़ता से सभी छात्रों को इन-पर्सन रूप से सीखने का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे टीडीएसबी डेटा कि छात्रों को कैसा लगता है कि वे सबसे अच्छा सीखते हैं, और इन-पर्सन लर्निंग में लौटने वाले छात्रों के संबंध में उपलब्ध डेटा के आधार पर, हमें विश्वास है कि चुनौतीपूर्ण रहने वर्ष के बाद छात्रों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है।

परिवार **गुरुवार, 5 अगस्त से गुरुवार, 12 अगस्त** तक इन-पर्सन या वर्चुअल लर्निंग के लिए चयन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं।

**गुरुवार, 5 अगस्त** को चयन फॉर्म लिंक के साथ ईमेल भेजी जाएगी। दो या उस से अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रत्येक छात्र के लिए एक अलग ईमेल और लिंक प्राप्त होगा। परिवारों कि लिए प्रदान किए गए लिंक का उपयोग करके चयन फॉर्म को पूरा करना अनिवार्य है।

जिन लोगों के लिए टीडीएसबी की फाइल में कोई ईमेल पता नहीं है, उन्हें 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच चयन फॉर्म को पूरा करने के लिए फोन कॉल आएगी। अगर 12 अगस्त तक हमें भरा हुआ चयन फॉर्म नहीं मिलता है, तो छात्रों को इन-पर्सन लर्निंग में रखा जाएगा।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद जैसे हम स्कूल वर्ष की सुचारु शुरुआत की तैयारी के लिए मिलकर काम करते हैं।

अधिक जानकारी के लिये कृपया यहां जाएं: [www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Form](http://www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22-Selection-Form)